

भारतीय मानक ब्यूरो
(वित्त विभाग)

सन्दर्भ: वित्त/डी एफ/7:113

07 July 2023

विषय : बी.आई.एस/डी.जी.ओ(483)/2023 दिनांक 18.04.2023 -
शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन संख्या 1

महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो ने तत्काल प्रभाव से बी.आई.एस/डी.जी.ओ(483)/2023 दिनांक 18.04.2023 में दी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन में निम्नलिखित संशोधन को मंजूरी दी है :

प्रत्यायोजन क्रमांक संख्या : ए - 1.13(a), 1.13(c),
ए-1.29 (f - नया शीर्ष मद)

संशोधन प्रत्यायोजन सलंगन है ।

हस्ताक्षरित/-
(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक (वित्त)

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख/एन.आई.टी.एस/ सभी प्रयोगशालाओं के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर रखने के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT)

Our Ref: FIN/DF/7:113

07.07.2023

*Subject: Amendment No. 1 to the Delegation of Powers
given in BIS/DGO(483)/2023 dated 18.04.2023*

DG:BIS has approved the Amendment to the Delegation of Powers given in the BIS/DGO(483) dated 18.04.2023 in respect of the below mentioned Budget Head with immediate effect:

Sl. No. of Delegation : **A – 1.13 (a), 1.13(c),
A - 1.29 (f – new head)**

The Amendment to the delegation is attached.

sd/-
(Gurpreet Singh)
Director (Finance)

Circulated through Intranet to:

- Heads of ROs/BOs/NITS/Labs
- Heads of all Departments at HQ, BIS
- All Officials of BIS

Copy to: ITSD for placing on BIS INTRANET

FINANCE DEPARTMENT

Ref: FIN/DF/7:113

07.07.2023

***Subject: Amendment No. 1 to the Delegation of Powers given in BIS/DGO(483)/2023
dated 18.04.2023***

Revised Delegation of Powers with effect from 07.07.2023 in respect of following Budget Heads of BIS/DGO(483)/2023 dated 18.04.2023:

- a) 1.13(a) : Conferences/ Seminars/ Workshop etc
- b) 1.13(c) : Training Programme Expenses at NITS- Other than
Sl. No. 1.13(b)
- c) 1.29(f) : Hiring of Contractual staff for canteen

sd/-

(Gurpreet Singh)
Director (Finance)

A. IN THE SCHEDULE TO THE BIS (POWERS & DUTIES OF DIRECTOR GENERAL) REGULATIONS, 2018.

Sl. No. of Schedule of Regulations	S.No.	Budgeted Head of Expenditure	Authority to whom Power for Administrative and Financial Approval is delegated	Extent of Delegation	Conditions under which Powers to be exercised
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. To sanction recurring expenditure					
		BUDGET ACCOUNTS HEADS RELATING TO COMMON ACTIVITIES - DELEGATION THEREIN			
	1.13	a) Conferences/ Seminars/ Workshop etc.	DDG(Standards)/ DDG(Hallmarking)/DDG(PRT)	Upto Rs. 10.00 lakh on each occasion	
			CVO/DDGA/DDGRs/ DDG(Labs)	Upto Rs. 7.50 lakh on each occasion	
			Heads of BOs/ Head(NITS)	Upto Rs. 5.00 lakh on each occasion	
			Heads of Labs/Departments Heads at HQ	Upto Rs. 1.00 lakh each occasion	
		b) Training Programme Expenses at NITS – Paid Programme	DDG(PRT)/ H(NITS)	Full Power	

Sl. No. of Schedule of Regulations	S.No.	Budgeted Head of Expenditure	Authority to whom Power for Administrative and Financial Approval is delegated	Extent of Delegation	Conditions under which Powers to be exercised
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. To sanction recurring expenditure					
		c) Training Programme Expenses at NITS- Other than Sl. No. 1.13 (b)	DDG(PRT)	Upto Rs. 25.00 lakh for each training	For Product Specific Capsule courses for Quality Control Personnel and all other training programme/courses to be conducted at NITS as per the policy/approval of Competent Authority.
			H(NITS)	Upto Rs. 10.00 lakh for each training	
			DDGRs	Upto Rs. 5.00 lakh for each training	
			Heads of BOs	Upto Rs. 2.5 lakh for each training	
	1.29	(f) Hiring of Contractual Staff for Canteen	DDGA/DDGRs/DDGL/DDG(PRT)	Full Powers	Opening of new canteen with the approval of DG:BIS. Hiring of contractual manpower for canteens as per guidelines as specified by DoPT order or as decided by DG-BIS